

तुरंत रिलीज के लिए

एमरजेंसी से निपटने के लिए तैयारी करने में हम सभी अपनी भूमिका निभा सकते हैं
सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने एमरजेंसी प्रीपेयर्डनेस वीक, 3-9 मई, 2020 को मान्यता दी

ब्रैम्पटन, ओनटैरियो (4 मई, 2020) – 3 से 9 मई तक, सिटी, एमरजेंसी प्रीपेयर्डनेस वीक (ई.पी.डब्ल्यू) (Emergency Preparedness Week) (EPW) को मान्यता दे रही है। इस साल, COVID-19 (सी.ओ.वी.आई.डी.-19) को देखते हुए, सिटी निवासियों को याद दिलाती है कि अब, यह पहले से भी अधिक महत्वपूर्ण है कि हम सुरक्षित रहने में और हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने में अपनी-अपनी भूमिका निभाएं।

निवासी जानकारी प्राप्त करके, शारीरिक दूरी कायम रखकर और पील पब्लिक हेल्थ (Peel Public Health) की सलाह का पालन करके, COVID-19 को फैलने से रोकने में, खुद को और समुदाय को सुरक्षित रखने में मदद कर रहे हैं। सिटी निवासियों को सलाह देती है कि वे ब्रैम्पटन को सुरक्षित रखने के लिए, लगातार ये प्रयास करते रहें।

सिटी, अपनी एमरजेंसी मैनेजमेंट (Emergency Management) टीम और सामुदायिक साझेदारों का भी धन्यवाद करती है, जो इस समय अपनी योजनाओं को लागू कर रहे हैं और COVID-19 के दौरान हमारे समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए, लगातार साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

हर साल, ई.पी.डब्ल्यू (EPW), निवासियों को यह याद दिलाने का समय होता है कि वे [ब्रैम्पटन की एमरजेंसी प्रीपेयर्डनेस गाइड \(Brampton's Emergency Preparedness Guide\)](#) की समीक्षा करें। साथ ही, वे बेहद गर्म मौसम, बाढ़ आने और बिजली कटौती जैसी, हर प्रकार की संभावित एमरजेंसी स्थितियों से निपटने के लिए तैयार रहें। अधिक जानने के लिए www.brampton.ca/prepared पर जाएं।

हवाले

“सिटी में पूरी टीम, COVID-19 को फैलने से रोकने के प्रयास करते हुए, हमारे समुदाय के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, साझेदारों के साथ मिलकर, बिना थके लगातार काम कर रही है। हर किसी को सूचना देते रहना और यह सुनिश्चित करना कि साथ मिलकर और समय रहते स्थिति पर काबू पाया जा रहा है, छोटी उपलब्धि नहीं है। मैं यह सुनिश्चित करने में कि COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, हम सभी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, हमारे ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस और रीजन ऑफ पील में, एमरजेंसी मैनेजमेंट स्टाफ की सराहना करता हूँ।”

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“COVID-19 को फैलने से रोकने में, हम सभी अपनी-अपनी भूमिका निभा सकते हैं। शारीरिक दूरी कायम रखकर और वायरस को फैलने में रोकने में मदद करके, हमारे समुदाय को सुरक्षित रखकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए, हमारे निवासियों का धन्यवाद।”

- रोएना सैंटोस (Rowena Santos), रीजनल काउंसलर, वार्ड्स 1 और 5; चेयर, कम्युनिटी सर्विसिज कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“COVID-19 को फैलने से रोकने के लिए, हमारी सिटी के लगातार प्रयास, हमारे स्टाफ और हमारे साझेदारों के साथ मिलकर तैयारी करने और उस पर अमल करने का परिणाम हैं। एमरजेंसी संबंधी योजनाओं पर अमल करने से लेकर, लगातार तैयारी करने और जानकारी देने की गतिविधियों तक, हमारा ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफिस सुनिश्चित करता है कि हमारे समुदाय में किसी भी प्रकार की एमरजेंसी से निपटने के लिए सभी जरूरी साधन मौजूद हैं।”

- जेफ बोमैन (Jeff Bowman), सिटी काउंसलर, वार्ड्स 3 और 4; मेम्बर, ब्रैम्पटन एमरजेंसी मैनेजमेंट प्रोग्राम कमेटी, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

“यह एमरजेंसी प्रीपेयर्डनेस वीक पहले जैसा नहीं है क्योंकि हमारी टीम COVID-19 महामारी की सच्चाई से निपट रही है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए, हमारी एमरजेंसी मैनेजमेंट टीम द्वारा लगातार योजना बनाने और तालमेल वाले प्रयासों के साथ-साथ, हमारे निवासियों और कारोबारियों की, हमारे साथ काम करने की प्रतिबद्धता की वजह से, हम आने वाले समय और सिटी को दुबारा खोलने पर विचार कर रहे हैं। हम अनुरोध करते हैं कि सभी अपनी-अपनी तैयारी रखें और हमारे समुदाय की सुरक्षा और स्थिति से निपटने की शक्ति को सुनिश्चित करने के लिए, स्वास्थ्य देखभाल और एमरजेंसी पेशेवरों की सलाह का लगातार पालन करते रहें।”

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोआर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रेटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca

